



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 324] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 1982/ कार्तिक 11, 1904
No. 324] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 2, 1982/KARTIKA 11, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर 1982

सं० 236 सीमाशुल्क

सां० कां० नि० 659 (अ)— केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना
यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,
1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्षक संख्या 73 03/05 के अधीन आने
वाले, यथास्थिति, जंगरोधी इस्पात के पिघले हुई स्लैब को, जब उसका विद्युत प्रेरण भट्टी
या किसी लघु उद्योग इकाई में विद्युत प्रेरण भट्टी के उपयोग के लिए भारत में आयात किया
जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह तब जब कि उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि ऐसे आयात किए गए जंगरोधी इस्पात के पिघले हुए, स्क्रैप का यथास्थिति विद्युत प्रेरण भट्टी में या उक्त लघु उद्योग इकाई में विद्युत प्रेरण भट्टी में उपयोग के लिए आशयित है।

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु उद्योग इकाई से ऐसा औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है, जिसमें —

- (1) मशीनरी और संगत में स्थिर छास्तियों में विनिधान कीम लाख रुपए से अधिक नहीं है, और
- (2) ऐसे समुत्पादन में विद्युत प्रेरण भट्टी कि संकलित क्षमता 500 कि०ग्रा० से अधिक नहीं है।
- (2) यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1983 तक जिसमें यह तारीफ भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 370/113/78-सीमा शुल्क-1]

एन० एसिधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 1982

NO. 236/82-CUSTOMS

G.S.R. 659(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts melting scrap of stainless steel, falling under Heading No. 73.03/05 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for use in an electric induction furnace or furnaces in a small scale industrial unit, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule:

Provided that the proper officer is satisfied that such imported melting scrap of stainless steel is intended for use in an electric induction furnace or furnaces in the said small scale unit.

EXPLANATION.—For the purposes of this notification, "small scale industrial unit" means an industrial concern in which—

- (i) the investment in machinery and plant is not in excess of rupees twenty lakhs; and
 - (ii) the aggregate capacity of the electrical induction furnaces in such concern is not more than five hundred Kgs.
2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st October, 1983.

[F. No. 370/113/78-Cus-I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.